



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 106] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 1981/फाल्गुन 22, 1902
No. 106] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 1981/PHALGUNA 22, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह मूल संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1981

का. आ. 185 (अ).—नौवहन विकास निधि समिति (साधारण) नियम, 1960 के नियम 4 के साथ पठित व्यापार नौवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कृषि और सहकारी विभाग के अपर सचिव श्री एस. पी. मुकजी को नौवहन विकास निधि समिति का तत्काल सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार के भूरापूर्व परिवहन और संचार मंत्रालय (परिवहन विभाग) (परिवहन पक्ष) की

अधिसूचना संख्या का. आ. 628 दिनांक 17 मार्च, 1959 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में—

क्रम संख्या 1 के बाद, निम्नीलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जाएँ, अर्थात् —

“2. श्री एस. पी. मुकुजी”, अपर सीचव,

कृषि और सहकारी विभाग”

इसके बाद की क्रम संख्याओं को तदनुसार बदला जाए ।

[सं. एस डब्ल्यू/एम एस डी (20)/81-एम डी]

ए. पद्मनाभन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 1981

S.O. 185(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with Rule 4 of the Shipping Development Fund Committee (General) Rules, 1960, the Central Government hereby appoint Shri S. P. Mukerji, Addl. Secretary in the Department of Agriculture and Cooperation, as a member of the Shipping Development Fund Committee with immediate effect and make the following further amendments in the Notification of the Government of India in the late Ministry of Transport and Communications (Department of Transport) (Transport Wing) No. S.O. 628, dated 17th March, 1959, namely :—

In the said notification—

After S. No. 1 the following S. No. and entries shall be inserted, namely :—

“2. Shri S. P. Mukerji, Additional Secretary in the Department of Agriculture and Cooperation”.

Further S. Nos. may be charged accordingly.

[No. SW/MSD(20)/81-MD]

A. PADMANABAN, Jt. Secy.